

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य 21.06.2021

थाना सदर बाजार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, अवैध असलहा सहित चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 20.6.21 को वादी मुकदमा श्री पंकज सिंह पुत्र संजय सिंह नि० मो० गदियाना थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर ने लिखित सूचना दी की उसकी मो०सा० TVS स्पोर्ट्स रंग काला हरा नं० UP 27 AS 4558 दिनांक 2.6.21 को वादी की दुकान से चोरी हो गयी है जिस पर थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 392/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा जनपद मे मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना मे संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर मोटरसाइकिल बरामद करने हेतु श्री संजय कुमार,अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण मे थाना सदर बाजार पुलिस की टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये ।

इसी क्रम मे दिनांक 21.6.21 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम को जरिये मुखबिर सूचना मिली की पंचपीर तिराहे पर शहवाजनगर की तरफ से तीन लड़के चोरी की मो०सा० लेकर बेचने के इरातदे से आ रहे है । मुखबिर की सूचना पर पंचपीर तिराहे पर चैकिंग की गयी समय करीब 03.40 AM पर **1-सोनू कनौजिया** से मो०सा० TVS स्पोर्ट्स बिना नम्बर एवं जामा तलाशी से एक तमन्चा 315 बोर व 2 कार० जिन्दा बरामद हुए व **2-पंकज** से मो०सा० हीरो हाण्डा सीडी डान बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई तथा **3-कासिम** से हीरो हाण्डा स्पलैण्डर रंग काला बिना नम्बर एवं जामा तलाशी से एक अदद चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त गण सोनू कनौजिया ,पंकज कनौजिया व कासिम के विरुद्ध मु०अ०सं० 393/21 धारा 41/102 द०प्र०सं० व 411 भादवि व मु०अ०सं० 394/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम सोनू कनौजिया व मु०अ०सं० 395/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० बनाम कासिम के पंजीकृत किये गये।

अभियुक्त गण से गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो बताया की हम तीनों एक साथ पहले दिल्ली मे काम करते थे लाकडाउन होने के कारण कोई काम न होने के कारण हम लोगो मोटर साइकिल की चोरी कर उन्हें विक्रय कर उनसे प्राप्त पैसो से आपस मे बाटकर मौज मस्ती करते है । हमने मो०सा० TVS स्पोर्ट्स दिनांक 02.06.21 को गदियाना चुंगी से तथा मो०सा० मो०सा० हीरो हाण्डा सीडी डान अप्रैल माह मे तहसिल सदर हरदोई से तथा हीरो हाण्डा स्पलैण्डर रंग काला बिना नम्बर को कई माह पूर्व कचहरी के सामने से चोरी किया था। आज हम इन मो०सा० को बेचने के लिये लेकर जा रहे थे । हम असलहा अपनी सुरक्षा के लिये अपने पास रखते है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- सोनू कनौजिया पुत्र राजाराम नि० मो० एमनजई जलालनगर थाना सदर बाजार शाहजहाँपुरा
- 2- पंकज पुत्र जयजयराम नि० श्यामतगंज गौटिया थाना सदर बाजार शाहजहाँपुरा
- 3- कासिम पुत्र सलामत नि० श्यामतगंज गौटिया थाना सदर बाजार शाहजहाँपुरा

### बरामदगी का विवरण

- 1- एक मो०सा० TVS स्पोर्ट्स UP 27 AS 4558 चैचिस नं० MD625PF57J1K66481, इंजन नं० NF5KJ1184912 (संबंधित मु०अ०सं० 392/21 धारा 379 भादवि थाना सदर बाजार)
- 2- मो०सा० हीरो हाण्डा सीडी डान बिना नं० प्लेट चैचिस नं० 04D27F48861, इंजन नं० 04027E49075
- 3- मो०सा० हीरो हाण्डा स्पलैण्डर UP30 EL 2793 चैचिस नं० MBLHA10EJ8HC19060, इंजन नं० HA10EA8HL43412
- 4- एक तमंचा 315 बोर मय 2 कार० जिन्दा 315 बोर
- 5- एक चाकू नाजायज

### पुलिस टीम:-

- 1-व०उ०नि० संजयकुमार थाना सदर बाजार
- 2-उ०नि० जयचन्द्र गिरी चौकी प्र० अशफाकनगर
- 3-उ०नि० राकेश कुमार थाना सदर बाजार
- 4-हे०का० 375 बिजेन्द्र सिंह ,
- 5-का० 2235 सुमरपाल थाना सदर बाजार
- 6-हे०का० 297 मिनहाज अहमद,
- 7-का०2125 आर्य त्यागी थाना सदर बाजार